

आईबी - वीज़ा- भारत



- सीमा : रु.10000 से रु.19,999
- ईएमआई सुविधा : नहीं
- ब्याज दर : 1.79% प्रति माह
- नकद सीमा : ऋण सीमा का 25%
- न्यूनतम मासिक देय राशि : 10%
- रिवॉर्ड पॉइंट : लागू नहीं
- बीमा कवर : *
- सेवा शुल्क : \$
- वार्षिक रखरखाव शुल्क : शून्य

आईबी - वीज़ा- भारत



- सीमा : रु.20000 से रु.99999
- ईएमआई सुविधा : हाँ @1.5% प्रति माह
- ब्याज दर : 1.99% प्रति माह
- नकद सीमा : ऋण सीमा का 40%
- न्यूनतम मासिक देय राशि : 5%
- रिवॉर्ड पॉइंट : खर्च किए गए प्रत्येक रु.200 के लिए रु.1 मूल्य की 1 पॉइंट जोकि 500 पॉइंट होने पर क्रेडिट किए जाएंगे।
- बीमा कवर : *
- सेवा प्रभार : \$
- वार्षिक रखरखाव शुल्क : प्रथम वर्ष निःशुल्क और दूसरे वर्ष # से रु.250 प्रति वर्ष

आईबी- वीज़ा – बिजनेस

आईबी- वीज़ा -प्लेटिनम



- सीमा : रु.100000 और अधिक
- ईएमआई सुविधा : हाँ @ 1.4% प्रति माह
- ब्याज दर : 1.66% प्रति माह
- नकद सीमा : ऋण सीमा का 40%
- न्यूनतम मासिक देय राशि : 5%
- रिवॉई पॉइंट : खर्च किए गए प्रत्येक रु.200 के लिए रु.1 मूल्य की 1 पॉइंट जोकि 500 पॉइंट होने पर क्रेडिट किए जाएंगे।
- बीमा कवर : *
- सेवा शुल्क : \$
- वार्षिक रखरखाव शुल्क : प्रथम वर्ष निःशुल्क और दूसरे वर्ष # से रु.250 प्रति वर्ष



कॉर्पोरेट/ व्यावसायिक संस्थान के आसान व्यय प्रबंधन के लिए

प्रकार : वीज़ा गोल्ड/ प्लैटिनम


- सीमा: ग्राहक के अनुरोध के अनुसार
- ईएमआई सुविधा : नहीं
- ब्याज दर: 1.99% प्रति माह
- नकद सीमा: ऋण सीमा का 40%
- न्यूनतम मासिक देय राशि: 5%
- रिवॉई पॉइंट: खर्च किए गए प्रत्येक रु.200 के लिए रु.1 मूल्य की 1 पॉइंट जोकि 500 पॉइंट होने पर क्रेडिट किए जाएंगे।
- बीमा कवर : *
- सेवा शुल्क : \$
- वार्षिक रखरखाव शुल्क : प्रथम वर्ष निःशुल्क और दूसरे वर्ष # से रु.500 प्रति वर्ष

आईबी- वीज़ा -प्लेटिनम



- परिक्रामी ऋण सीमा :
रु.25,001 से रु.1,99,999
- नकद अग्रिम सुविधा :
ऋण सीमा का 40%
- एड ऑन कार्ड : 4 कार्ड तक
- रिवॉर्ड प्वाइंट : खर्च किए गए प्रत्येक रु.200 के लिए रु.1 मूल्य की 1 पॉइंट जोकि 500 पॉइंट होने पर क्रेडिट किए जाएंगे।
- ईएमआई सुविधा : हाँ
- ब्याज दर : 1.66%
- हवाई अड्डा लाउंज : लागू
- मर्चेन्ट ऑफ़र : पीओएस/ऑनलाइन
- 24/7 कन्सीर्ज सेवाएं : लागू
- बीमा कवर : रु.2.00 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना और स्थायी विकलांगता बीमा कवर

आईबी- वीज़ा -प्लेटिनम



- परिक्रामी ऋण सीमा:
रु.25,001 से रु.1,99,999
- नकद अग्रिम सुविधा:
ऋण सीमा का 40%
- एड ऑन कार्ड : 4 कार्ड तक
- रिवॉर्ड प्वाइंट : खर्च किए गए प्रत्येक रु.200 के लिए रु.1 मूल्य की 1 पॉइंट जोकि 500 पॉइंट होने पर क्रेडिट किए जाएंगे।
- ईएमआई सुविधा : हाँ
- ब्याज दर : 1.66%
- हवाई अड्डा लाउंज : लागू
- मर्चेन्ट ऑफ़र : पीओएस/ऑनलाइन
- 24/7 कन्सीर्ज सेवाएं : लागू
- बीमा कवर: रु.2.00 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना और स्थायी विकलांगता बीमा कवर

आईबी-रुपे-बिजनेस

आईबी-रुपे-सिलेक्ट



- परिक्रामी ऋण सीमा: रु. 2,00,000 एवं अधिक
- नकद अग्रिम सुविधा: ऋण सीमा का 40%
- एड ऑन कार्ड : 4 कार्ड तक
- रिवॉर्ड प्वाइंट: खर्च किए गए प्रत्येक रु.200 के लिए रु.1 मूल्य की 1 पॉइंट जोकि 500 पॉइंट होने पर क्रेडिट किए जाएंगे।
- ईएमआई सुविधा: हाँ
- ब्याज दर: 1.66%
- हवाई अड्डा लाउंज : लागू
- मर्चेन्ट ऑफ़र : पीओएस/ऑनलाइन
- 24/7 कन्सीर्ज सेवाएं : लागू
- बीमा कवर : रु.10.00 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना और स्थायी विकलांगता बीमा कवर



- पात्रता : कॉर्पोरेट/ एसएमई जिसके पास रु.10.00 लाख और उससे अधिक की सुरक्षित क्रेडिट सीमा है संगठन : पब्लिक / प्राइवेट लिमिटेड / पार्टनरशिप/ प्रोप्राइटी/ ट्रस्ट / एसोसिएशन
- अनिवार्य दस्तावेज : पैन कार्ड
- 3. कॉर्पोरेट (केवल चालू खाते वाले) : प्रतिष्ठित कॉर्पोरेटस जिसने पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का संतोषजनक ढंग से संचालन किया है
- परिक्रामी ऋण सीमा: ग्राहक के अनुरोध के अनुसार
- नकद अग्रिम सुविधा: ऋण सीमा का 20%
- एक संस्था को जारी किए जा सकने वाले कार्डों की अधिकतम संख्या: अधिकतम 5 कार्ड
- ईएमआई सुविधा: हाँ
- ब्याज दर : 1.99%
- हवाई अड्डा लाउंज : लागू
- मर्चेन्ट ऑफ़र : पीओएस/ऑनलाइन
- 24/7 कन्सीर्ज सेवाएं : 24/7 रेफ़रल सेवाओं का लाभ उठाएं- यात्रा सहायता से लेकर होटल बुकिंग तथा परामर्श सेवाएं
- बीमा कवर : ऋण सीमा : रु.25,001 से रु.1,99,999 : रु.2.00 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना और स्थायी विकलांगता बीमा कवर ऋण सीमा : रु.2.00 लाख और अधिक : रु.10.00 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना और स्थायी विकलांगता बीमा कवर